

# कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, तेघड़ा।

पत्रांक-1.49 (अ.क.क.)/तेघड़ा,

दिनांक-10/02/2025

प्रेषक : कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल, तेघड़ा।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी  
3054 कोषांग,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय :- शीर्ष-नई अनुरक्षण नीति-2018 के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं में किये जा रहे कार्यों के विरुद्ध राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, तेघड़ा के अधीन कार्यान्वित कराये जा रहे शीर्ष नई अनुरक्षण नीति-2018 के अन्तर्गत विभिन्न पथों की अधियाचना (विहित प्रपत्र) में अंकित राशि रुपये-203.04094 लाख (दो करोड़ तीन लाख चार हजार चौरानवे) मात्र राशि उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-विहित प्रपत्र में।

विश्वासभाजन

*[Signature]*  
10/02/25  
कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल, तेघड़ा।  
*[Signature]*  
10-2-25

**FORM GFR 19-A**  
**Form of Utilization Certificate up to the Month of February..2025**  
**Rural Roads under Maintenance Policy-2018 under MR (3054).**

SL. No	Name of Scheme	Sanction No & Date with Amount (in Rs. Lacs)	Amount Received (in Rs. Lacs)		Particulars
			Letter No.	Amount	
1.	Rural Roads under Maintenance Policy-2018 Under MR3054.			4450.98688	Certified that out of Rs 4450.98688 Lac received upto 08, February, 2025 in favour of Executive Engineer, RWD (W) Division Teghra a sum of Rs. 4437.86305 Lac has been utilized & Rs- 12.87956 Lac Surrender for the purpose of Maintenance Policy-2018 Under MR 3054 Schemes under as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 0.21427 Lac remaining unutilized at the end of the Period under.
				4450.98688	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it as sanctioned.

**Kind of Checks Exercised :-**

- (i) Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- (ii) Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- (iii) Construction material has been tested.
- (iv) Measurements have been recored in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- (v) All other codal formalities have been observed.

3. **Physical Progress achieved.**

- (i) Construction of Road Works.
- (ii) Construction of CD Works.

*Ammy*  
**Executive Engineer**  
Rural Works Department,  
Works Division Teghra.

*20/2-25*

**Requisition Formate for Scheme Head - MR(3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy - 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)**

**Name of Works Division :- Teghra**

Sl No.	Package No.	Name of Road	Project ID as Per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (In Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Amount (in Lakh)	up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (in km)	Amount of (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Years Routine Maintenance (in Lakh)										
1	MR-N/23-24 Teghra/02	L026 - T03 to Pipra Dodraji (VR26)	32010702025	Lt No.-6120 Date-04.12.2023	1.800	112.280	85.249	10.24821	02 MBD/MR-N/ 2024-25 & 16.03.2024	15.12.2024	14.12.2024	Attached	25.00	5.00	0.00	0.00	84.75175	Complete.
2	MR-N/23-24 Teghra/02	L029 - T01 To Nipania (VR29)	32010702028	Lt No.-6120 Date-04.12.2023	2.200	142.960	108.562	12.40162	02 MBD/MR-N/ 2024-25 & 16.03.2024	15.12.2024		Attached	25.00	5.00	0.00	0.00	58.01526	Work in Progress
3	MR-N/23-24 Teghra/01	Gopiol Sima Dhala To ghoshit Dab Chat	32010713016	Lt No.-6120 Date-04.12.2023	1.120	77.39	60.40461	4.57964	01 MBD/MR-N/ 2024-25 & 15.03.2024	14.12.2024	11.12.2024	Attached	25.00	5.00	0.00000	0.00000	60.27393	Complete.
<b>Total =</b>																	<b>203.04094</b>	

- Signed Hard Copy and Soft Copy (in Excel) of Recorded IRI is enclosed.
- Up-To-Date Physical Progress has been uploaded in MIS.

  
 Executive Engineer  
 RWD, Works Division,  
 Teghra

**Name of Customer :** Astha and Saumya Construction  
**Name of Work/ Road :** L029 - T01 To Nipania (VR29)  
**Lab Job number :** 47  
**Date :** 27-01-2025  
**Section No. :** 47

**Test Date :** 27-01-2025  
**Road Name :** L029 - T01 To Nipania (VR29)  
**Machine No :** 489  
**Road Type :** (C) CEMENT CONC.  
**Start S No :** 0.0  
**Side :** Interval  
**Start E No :** 1.1  
**Weather :**  
**Start Location :**  
**Dist Range :** 0 To 1.2 \* 1000 m  
**End Location :**  
**Equation :**  $Y = 0 * X^2 + 0.797 * X + 396.3$

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph Map View

File : E:\Bump related Data\New Bump Machine 2024\Reports\2025\L029 - T01 To Nipania

Name of Customer : Astha and Saumya Construction, Name of Work/ Road : L029 - T01 To Nipania (VR29), Lab Job

UIV 2946 mm/km

1946

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1



Distance \* 1000 m

Signature  
01/01/25

Signature  
01/01/25

Signature  
01/01/25

Signature  
01/01/25



Road Name - I029 - T01 To Nipania (VR29)												
Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	UW	TEGORY ROAD	IRI	Latitude	Longitude	Event
27/1/25	12:13:14	47	0.1	330	20.2	3300	3026 G	4.05	25.45247	85.99983	Normal	
27/1/25	12:13:35	47	0.1	340	30.3	3400	3106 G	4.15	25.45226	85.99918	Normal	
27/1/25	12:13:57	47	0.1	350	30.3	3500	3185 G	4.24	25.45189	85.99991	Curve	
27/1/25	12:14:11	47	0.1	330	20.2	3300	3026 G	4.05	25.45132	85.99574	Normal	
27/1/25	12:14:28	47	0.1	350	30.3	3500	3185 G	4.24	25.45023	85.99161	Normal	
27/1/25	12:14:54	47	0.1	360	30.3	3600	3265 G	4.34	25.45231	85.99836	Normal	
27/1/25	12:15:18	47	0.1	350	20.2	3500	3185 G	4.24	25.45047	85.99314	Normal	
27/1/25	12:15:32	47	0.1	360	30.3	3600	3265 G	4.34	25.45042	85.99272	Normal	
27/1/25	12:15:55	47	0.1	320	20.2	3200	2946 G	3.96	25.45074	85.99461	Normal	
27/1/25	12:16:20	47	0.1	360	20.2	3600	3265 G	4.34	25.45128	85.99549	Normal	
27/1/25	12:16:49	47	0.1	330	20.2	3300	3026 G	4.05	25.45242	85.99937	Normal	
Total IRI												Average
												3436.364

$$Y = 0 * X^2 + 0.797 * X + 396.3$$

$$X = 3300$$

$$Y = 3026$$

(R) RURAL ROAD

Good Average Poor  
<4000 4001-5000 >5001

*for 01/01/25*

*for 01/01/25*

*for 01/01/25*

*for 01/01/25*

प्रमाणित किया जाता है कि इस माप कृष्ण  
में मशीन द्वारा कुल (100) एक सौ पन्ने  
अंकित हैं जो श्री प्रेम चन्द्र गुप्ता सहायक  
अभिप्रह, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर  
प्रमंडल, तेहरा के नाम से निर्गत किया गया  
है

36/6/24  
Executive Engineer  
R.W.D. Works Division  
Teghra (Begusar)

Re-issued to Mr. P. Mandal  
J.E., Teghra, M.E.K.

30/6/24  
A.O.

Sch. XLV-Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

## Measurement Book

No.

Name of officer

Date of first entry

Date of last entry



7

Sch. XLV-Form No. 13A **BP 5210037**

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
13/11	PIV	Log 0	C 1/4		
		Rural	all		
		Vic 14/2	02	09	
		91	2	02	
		11500.25			23142
			B =	5233109	
		Add. CST + L. ces	19.1		954304
		Add. S. Fee	10.1		62798
			R =	6290281	
		Below 7.07.1			488755
			B =	5801526	

*[Signature]*  
4/2/25

*[Signature]*  
5/1/25

*[Signature]*  
5/1/25

Continuation